

पत्रांक ३२५ / ३१६

दिनांक ०६-०२-२०१५

प्रेषक :-  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा ।

सेवा में,  
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,  
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
मधेपुरा ।

विषय:- स्रोत पर VAT (Sales Tax) की कटौती के संबंध में ।

महोदय,  
आपको निदेश दिया जाता है कि बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (Bihar Value Added Tax Act, 2005) के अन्तर्गत धारा 40 एवं 41 में वर्णित अधिनियम के अनुसार स्रोत पर, कर (VAT) की कटौती करना सुनिश्चित करें ।

स्रोत पर, कर (VAT) की कटौती किसी तरह के कर देय वस्तु की खरीद/आपूर्ति/संविदा पर करनी है । यानि बिल का भुगतान करने के समय ही विहित दर पर VAT राशि काट कर बिल का भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

सुलभ प्रसंग हेतु धारा 40 एवं 41 की छाया प्रति एवं कर दर की सूची पत्र के साथ संलग्न है । साथ ही VAT की कटौती की गयी राशि वाणिज्य-कर उपायुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अविलंब भुगतान कर दें ।

वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है अतएव राजस्वहित में निदेश का अनुपालन शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करें ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

०६/०२/१५

जिलाधिकारी  
मधेपुरा ।



पत्रांक

510

दिनांक

प्रेषक :-

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा ।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,  
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
मधेपुरा ।

विषय:- स्रोत पर VAT (Sales Tax) की कटौती के संबंध में ।

महोदय,

आपको निदेश दिया जाता है कि बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (Bihar Value Added Tax Act, 2005) के अन्तर्गत धारा 40 एवं 41 में वर्णित अधिनियम के अनुसार स्रोत पर, कर (VAT) की कटौती करना सुनिश्चित करें ।

स्रोत पर, कर (VAT) की कटौती किसी तरह के कर देय वस्तु की खरीद/आपूर्ति/संविदा पर करनी है । यानि बिल का भुगतान करने के समय ही विहित दर पर VAT राशि काट कर बिल का भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

सुलभ प्रसंग हेतु धारा 40 एवं 41 की छाया प्रति एवं कर दर की सूची पत्र के साथ संलग्न है । साथ ही VAT की कटौती की गयी राशि वाणिज्य-कर उपायुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अविलंब भुगतान कर दें ।

वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है अतएव राजस्वहित में निदेश का अनुपालन शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करें ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

06/02/15

जिलाधिकारी  
मधेपुरा ।

डा/पा/0 - 255/570. मधेपुरा दि. 06-02-2015

उत्तिलिपि - DDC/SDD

10



## SL Description of Goods [Schedule-III : 5% Tax]

1. Agricultural implements not operated manually or not driven by animal and spare parts, accessories and components thereof.
2. Aluminium in all its forms, namely, aluminium ingots, slabs, bars, rods, wires, coils, sheets, plates, circles, sections, channels, angles, joists, extrusions, including aluminium scraps and aluminium foils.
3. All equipments for communications such as, Private Branch Exchange (P.B.X) and Electronic Private Automatic Branch Exchange (E.P.A.B.X) and spare parts, components and accessories thereof.
4. All intangible goods like copyright, patent, and replenishment (REP) license other than those specified elsewhere in this schedule or any other schedule.
5. All kinds of bricks including brickbats, jhama, fly ash bricks, refractory bricks and asphaltic roofing earthen tiles, and refractory monolithic and fly ash.
6. All types of toys except those specified elsewhere in this schedule or any other schedule and excluding electronic toys.
7. All types of yarn including jute yarn and jute twine and sewing thread but excluding cotton and silk yarn in hank.
8. All utensils including pressure cookers and pans excepting utensils made of precious metals.
9. Aluminium conductor steel reinforced (ACSR), all aluminium conductor(AAC) and all aluminium alloy conductor (AAAC).
10. Areca nut powder and betel nut.
11. Articles made of rolled-gold and imitation gold and all types of imitation jewellery.
12. Asphalt felt, roofing felt, water-proof felt, polymeric felt and plastic felt.
13. Bamboo including split bamboo and cut bamboo.
14. Bagasse.
15. Basic chromium sulphate, sodium bi-carbonate and Bleach liquid.
16. Barley.
17. Battery lead, lead ash and separator for storage battery.
18. Bearing including plummer blocks, housing for bearing, locate rings and covers, adopter withdrawal sleeves, lock nut, lock washers, clamps and rolling elements.
19. Beedi leaves.
20. Beltings of all varieties and descriptions.
21. Bicycles, tricycles and cycle rickshaws, and spare parts, accessories and components including tyres and tubes thereof.
22. Biomass briquettes.
23. Bio-fertilisers and micronutrients, plant growth promoters and regulators.
24. Bitumen.
25. Boiler, furnace and parts thereof.
26. Bone meal.
27. Household goods such as Jugs, Mugs and Buckets made of iron and steel, aluminium, plastic or other materials, except those made of precious metals.
28. Bulk Drugs.
29. Candles.
30. Cast iron Castings other than those specified elsewhere in this schedule or in any other schedule.
31. Castor oil.
32. Caustic soda, caustic potash and soda ash.
33. Motor, operated electrically or otherwise and centrifugal and monobloc and submersible pumps and spare parts, components and accessories thereof.
34. Chemical fertilizers including basic slag, pesticides, weedicides, insecticides, germicides, fungicides and herbicides, other than bleaching powder.
35. Clay including fireclay, fine china clay and ball clay.
36. Coal tar.
37. Coffee beans, cocoa pod, and chicory.
38. Coir and coir products excluding coir mattresses.
39. Chanachur, bhujia, dalmoot, fried potato chips and salted peanuts whose brand or trademark is not registered under any law in force.
40. Cervical spinal collar, brace and or those, hand splint, fracture brace and colostomy including face plate and wafer, dialysis bag, urobag, water seal drainage bag. 41. Cotton and cotton waste.
42. Combs.
43. Cups and glasses of paper and plastic.
44. Crucibles.
45. Drugs and medicines, whether patent or proprietary, including vaccines, disposable hypodermic syringes, hypodermic needles, catguts, sutures, surgical dressings, medicated ointments produced under the license issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 but excluding any cosmetics, perfumery, toiletry and hair oil, whether or not such cosmetics, perfumery, toiletry and hair oil is manufactured under any Drug License and whether or not such cosmetics, perfumery, toiletry and hair oil contains any medicinal properties.
46. Medical diagnostic kits.
47. Edible oils other than coconut oil and oil cake.
48. Electrodes, electrical insulators.
49. Embroidery or zari articles, that is to say, - (i) imi; (ii) zari; (iii) kasab; (iv) saima; (v) dabka; (vi) chumki; (vii) gota; (viii) sitara; (ix) naqsi; (x) kora; (xi) glass bead; (xii) badla; (xiii) glzal, (xiv) embroidery machines, (xv) embroidery needles.
50. Exercise book, drawing book, graph book, account book and laboratory note book.
51. Fibres of all types and fibre waste.
52. Feeding bottles and nipples.
53. Fried grams and roasted grams.
54. Glass chimney other than chimney for use in gas light and petromax light.
55. Goods as specified in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.
56. Gypsum of all forms and descriptions but which does not include Gypsum board and Plaster of Paris.
57. Hand pump parts and fittings.
58. Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari booti and dry flower.
59. Hollow polyester fibre.
60. Honey.
61. Hose pipes of all varieties and descriptions including their end fittings.
62. Hosiery goods of all varieties and descriptions.
63. Hurricane lantern, kerosene lamp, petromax and accessories and components thereof and gas mantles.
64. Husk of cereals, and bran of cereals other than wheat bran.
65. Ice.
66. Incense sticks commonly known as, agarbati, dhupkathi, Dhupbati and havan samagri including sombrani and lobhana.
67. Industrial cables (High voltage cables for voltage exceeding 1000 volt, XLPE Cables, PVC cables, jelly filled cables, optical fibres).
68. IT products as specified in Part-II of this Schedule (please see Annexure-I).
69. Jute batching oil.
70. Knitting wool.
71. Kattha
72. Khandsari.
73. Leaf plates and cups.
74. Lignite.
75. Lime, limestone, clinker and dolomite.
76. Linear alkyl benzene (LAB), Sulphonate Acid, Alfa olefin sulphonate.
77. Maize starch, glucose, maize gluten, maize germ and oil.
78. Mixed PVC stabilizer.
79. Industrial inputs and packing materials as specified in Part-III of this Schedule (please see Annexure-II).

80. Medical equipments, devices and implants.
81. Napa Slabs and Shahabad stones.
82. Newars.
83. Non-ferrous metals and alloys of ferrous and non-ferrous metals, ferrous and non-ferrous metal castings.
84. Nuts, bolts, screws, fasteners and nails.
85. Ores and minerals other than those specified elsewhere in this Schedule.
86. Organic manure.
87. Paper, coated paper, carbon paper, paperboard, paper used for computer printing and newsprint.
88. Paraffin wax of all grade standards other than food grade standard including standard wax and slack wax.
89. Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, ductile pipes and PVC pipes, and fittings thereof.
90. Pizza-bread, bun or bread containing any type of fruit or vegetable.
91. Plant and machineries of all descriptions.
92. Chappal and Sandal made exclusively of plastic; Hawai chappals and parts and components thereof.
93. Plastic granules, plastic powder and master batches.
94. Poppy seeds.
95. Pre-used motor car.
96. Printed materials including diary, calendar and letter pad.
97. Printing ink excluding Toner and cartridges.
98. Porridge and cottage cheese.
99. Processed or preserved vegetables and fruits, other than dry fruits but including fruit jams, jelly, pickle, fruit squash, fruit paste, fruit drink and fruit juice, whether in a sealed container or not, and wet dates.
100. Pulp of bamboo, wood and paper.
101. Rail coaches engines, wagons and freight containers and parts thereof.
102. Readymade garments other than hosiery goods but including necktie, bow and collar.
103. Refrigerant in the form of liquid or gas.
104. Renewable energy devices and spare parts.
105. Residual liquefied hydrogen gas and other gases used as fuel other than liquefied petroleum gas (LPG).
106. Gloves.
107. Rusk that is hardened bread.
108. Safety matches.
109. Scrap of old and condemned battery.
110. Spectacles and parts and components thereof, contact lens and lens cleaner.
111. Sewing machine and its spare and accessories.
112. Ship liable to be registered under the Merchants Shipping Act, 1958, all types of tugs, floating docks, floating cranes, dredgers, barges and other water vessels including non-mechanized boats.
113. Textile products which includes blanket, towel, bed sheet, handkerchief and sari-fall.
114. Skimmed milk powder and UHT milk.
115. Sodium Silicate.
116. Solvent oils other than organic solvent oil.
117. Soya nuggets, commonly known as soya bori.
118. Spices of all varieties and forms including cumin seed, aniseed, turmeric, dry chillies and hing (asafoetida).
119. Sand and grit.
120. Sports goods excluding apparels and footwear.
121. Stainless steel sheets.
122. Starch and starch based glues.
123. (i) Solar thermal device, solar photovoltaic device and combination of solar thermal device and solar photovoltaic device and spare parts of all such devices.  
(ii) Solar fans, solar lights, solar pumps and solar lanterns, which run on electricity generated by photovoltaic devices.
124. Sugar, other than those manufactured in India.
125. Tallow.
126. Tamarind including tamarind seed powder.
127. Tea.
128. Textile fabrics of all varieties, other than those manufactured or made in India including wire cloths and felt, endless or fitted with linking devices of a kind used in paper making machine or any other machine.
129. Torch.
130. Tools, that is to say —a. Power Tools such as electric drills, tapping machines, hammers, sanders, planners, screw drivers, blowers, routers, winches, grinders, super abrasives, non-woven abrasives, bonded abrasives other than stone for polishing floor, stone for sharpening carpenters' instruments, tile polishing blocks and rubbing bricks;  
b. Cutting Tools such as taps, milling cutters, reamers, segments, carbide tools, saws, high speed cutoff machines, shears, nibblers, compound miter saws, masonry cutters, diamond dresser cutter, gear hobbs and gear shaper cutters; c. Measuring Tools such as micrometers, vernier calipers, feeler gauges, height gauges, slip gauges, snap gauges, pressure gauges, dial thermometers, water meter and measuring steel tapes; d. Hydraulic Tools such as jacks, pipe-benders, torque wrenches, breakers, cylinders and control valves; e. Pneumatic Tools such as impact wrenches, rammers, grinders, drills torque wrenches, filters, regulators and lubricant applicators; f. Hand Tools such as spanners, pliers, screw drivers, hammers, torque tools, cold chisels, drill bits and burrs, tool bits, hack-saws, hack-saw blades and frames, band-saw rolls, dice, die-nuts, tools for carpentry, tools for masons and steel files.
131. Tractors, Threshers, Harvesters and attachments and parts thereof which include their tyres and tubes.
132. Transformers.
133. Transmission towers.
134. Umbrella and spare parts and components thereof but excluding garden umbrella Rain-wear (raincoat).
135. Vanaspati also known as vegetable ghee, manufactured or made in India and sold under various trade names and descriptions, such as Dalda, Kusum, etc.
136. Gingili oil and bran oil.
137. Waste paper.
138. Weighing machines and weighing scales and weights of all kinds.
139. Writing instruments such as lead pencils, pen of all varieties and descriptions, refill, cartridges, nozzles, nib. Geometry boxes, colour boxes, crayons, erasers, pencil sharpeners and writing ink other than those specified elsewhere in any other Schedule.
140. X-Ray film and other diagnostic films.
141. Zipper or zip fasteners and parts thereof.

**Except above 13.5% Tax will be charged**

40. सरकार एवं अन्य व्यक्तियों को को गई बिक्री एवं आपूर्तियों पर कर की अधिम वस्तुली:- (1) इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए किन्तु धारा-6 के उपबंधों के अधीन,

- जन्म सरकार को; या
- केन्द्र सरकार को; या
- जन्म सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः स्थापित, वित्त पोषित या नियंत्रित किसी कम्पनी, फिजिय, पब्लिक, प्राधिकार, उपक्रम या किसी अन्य निकाय को किसी विधीय वर्ष में रुपये दो लाख पचास हजार से अधिक मूल्य के कर योग्य माल को बिक्री या आपूर्ति की बात बिक्री मूल्य के या बिक्री मूल्य पूर्णतः या अंशतः भुगतान से तात्परित कोई रकम भुगतान करने का दायी कोई व्यक्ति भुगतान के समय, यथाविहित शर्तों एवं निबंधनों के अध्याधीन, जन्म सरकार द्वारा अधिस्वचना द्वारा विनिर्दिष्ट दर से भुगतान की ज़ानेवारी राशि से बिक्री कर मद्द रकम को कटौती करेगा;

परन्तु यह कि, जन्म सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली दर अथवा दरें बिक्री या आपूर्ति की गई वस्तु पर प्रवृत्त कर दर से अनधिक होंगी।

(2) किसी प्रतिरूत विधि या अनुबंध के होते हुए भी, ऐसी कटौती करने वाली व्यक्ति ऐसी कटौती करने हेतु विधि पूर्वक सक्षम होगा।

(3) उपधारा-(1) के अधीन कटौती की गई राशि का विहित रीति से सरकारी कोषागार में भुगतान करने का दायित्व ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति का होगा।

(4) उपधारा-(1) के अधीन कटौती की गई राशि को कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा सरकारी कोषागार में भुगतान करना विक्रेता या आपूर्तिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से किया गया भुगतान समझा जायेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति उप धारा-(1) या (4) के किसी या सभी उपबंधों का उल्लंघन करता हो तो वह उप धारा-(1), के अधीन कटौती योग्य राशि से अधिकतम दो गुनी राशि तक शासित के रूप में भुगतान करने का दायी होगा;

परन्तु ऐसी शासित तद्वत्क नहीं लागू जाएगी जबतक कि उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को विहित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।

(6) किसी व्यापारी से देय कर की राशि को वसूली के लिए धारा-39 एवं 47 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित, कटौती की गई कर को कोई राशि और या इस धारा-के अधीन लगायी गई, किन्तु जमा नहीं की गई शासित की वसूली के लिए भी लागू होंगी।

स्पष्टीकरण:- इस धारा-में "व्यक्ति" के अन्वयत वैसे पदाधिकारी या प्राधिकारी समितिलि है, जो जन्म सरकार को या जन्म सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः स्थापित, वित्त पोषित या नियंत्रित किसी कम्पनी, फिजिय, पब्लिक, प्राधिकारी, उपक्रम या किसी अन्य निकाय को बिक्री से संबंधित विक्रय-मूल्य का भुगतान करने के लिए सक्षम या प्राधिकृत हो।

(7) अध्यादेश की धारा-41 की उप-धारा-(5) और (7) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित, उस दर तक लागू होंगी, जिस दर तक वे उस व्यक्ति को प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित हो जिसके विपक्षों से कटौती की गयी हो तथा नैमासिक विवरण दाखिल करने से संबंधित हो;

41. कार्य संविदाकारों से कर की अधिम वस्तुली:- (1) धारा-43 में अन्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा-6 के उपबंधों के अध्याधीन किसी निर्माण संविदा के निष्पन्न में निहित माल में सम्पत्ति के अंतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में हो) के संबंध में भुगतान मूल्यवान प्रतिफल हेतु दायित्व के निर्वहन से संबंधित विक्रय क्रम का अथवा उसके लिए तात्परित आर्थिक या पूरी रकम को चुकीतो करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निर्माण संविदाकार द्वारा समुपस्थापित एवं उस व्यक्ति द्वारा भुगतान प्रत्येक विलों या बीजकों से उन विक्रयों पर देय पूरे कर या उसके भाग में, अधिकतम प्रतिशत

को सौभाग्य तक, उस दर अथवा उन दरों पर, जो जन्म सरकार राजपत्र में अधिस्वचना प्रकाशित कर विनिर्दिष्ट करे, कटौती करने के लिए विधि पूर्वक सक्षम होगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा में "व्यक्ति" में जन्म सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी कम्पनी, फिजिय, प्राधिकार, सहकारी समितिया, उपक्रम अथवा किसी अध्यादेश के अधीन गठित अथवा स्थापित कोई अन्य निकाय तथा किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम तथा संगठन के सभी अधिकारी एवं प्राधिकारी सम्मिलित है।

परन्तु जन्म सरकार ऐसी शर्त विहित कर सकती जिसके अध्याधीन ऐसी कोई कटौतियाँ नहीं की जायेंगी।

(2) किसी निर्माण, संविदाकार द्वारा, माल में सम्पत्ति के अंतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) के संबंध में प्रस्तुत किये गये किसी विल या बीजक का कोई भी ऐसा भुगतान या चुकीतो, उपधारा-(1) में निर्दिष्ट कटौती किये बिना नहीं की जायेगी।

परन्तु उपधारा-(1) के अधीन कटौती नहीं की जायेगी, यदि भुगतान कार्य संविदा के प्रारम्भ के पूर्व में अधिम के रूप में की गई हो जब तक वह अधिम, वस्तु (वस्तु अथवा किसी अन्य रूप में) के हस्तांतरण हेतु भुगतान विक्रय क्रम का अंश नहीं बन जाये;

परन्तु यह और कि उपधारा-(1) के अधीन भुगतान अथवा उसके किसी अंश से कटौती नहीं की जायेगी यदि:-

(i) संतर्भूत भुगतान कार्य संविदा के कार्यान्वयन में वस्तु (वस्तु अथवा किसी अन्य रूप में) के हस्तांतरण से सम्बद्ध नहीं हो;

(ii) व्यवसायी द्वारा उपयुक्त, वाणिज्य-कर, सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर अथवा वाणिज्य-कर पदाधिकारी, संबंधित अंचल के प्रभारी, द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किय जाय कि

भुगतान अथवा उसका कोई अंश ऐसे वस्तु (वस्तु अथवा किसी अन्य रूप में) के हस्तांतरण से सम्बद्ध है जिस पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-15 के अंतर्गत कर भुगतान व अधिकृत दायित्व नहीं बनता है;

(iii) व्यवसायी द्वारा उपयुक्त वाणिज्य-कर, सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर अथवा वाणिज्य-कर पदाधिकारी, संबंधित अंचल के प्रभारी, द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कि जाय कि भुगतान अथवा उसका कोई अंश ऐसे वस्तु (वस्तु अथवा किसी अन्य रूप में) के हस्तांतरण से सम्बद्ध है जिस पर इस अध्यादेश की धारा-6 के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान का दायित्व नहीं बनता है।

(3) उपधारा-(1) के अधीन की गई कटौती का समायोजन अन्तिम रूप से निर्धारित या अवधार्ता कर की उस रकम से किया जायेगा जो संबंधित कार्य संविदाकार द्वारा देय होगी, और वैसी निर्धारित अवधार्ता रकम से अधिक कटौती कई रकम इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार प्रतिदेय होगी।

(4) उप-धारा-(1) में निर्दिष्ट कटौती यथा विहित रीति से की जायेगी।

(5) ऐसी कटौती करने वाली व्यक्ति उस व्यक्ति या कार्य-संबद्धक को जिनके विल या बीजक प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा तथा उक्त प्रमाण-पत्र कटौती की सौभाग्य तक धारा-24 की उपधारा-(9)

(6) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा-(1), (2), (3), (4) और (5) में निहित किसी अथवा सभी उप धाराओं के अंतर्गत, तो विहित प्राधिकारी सुनवाई का युक्तिरूपत अवसर देने के बाद लिखित आदेश का उल्लंघन करे, तो विहित प्राधिकारी सुनवाई का युक्तिरूपत अवसर देने के बाद लिखित आदेश निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार कटौती योग्य राशि अथवा कटौती की गयी और विहित रीति सरकारी कोषागार में जमा नहीं की गयी रकम की दूनी से अनधिक राशि का भुगतान शासित करेगा।

44